



2730 - क्या तरावीह की नमाज़ और क्रियाम की नमाज़ के बीच अंतर है ?

प्रश्न

मैं तरावीह और क्रियाम की नमाज़ के बीच अंतर जानना चाहता हूँ।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

तरावीह की नमाज़, क्रियामुल्लैल ही में से है। वे दोनों दो अलग-अलग नमाज़ें नहीं हैं, जैसाकि बहुत से लोग गुमान करते हैं, बल्कि रमज़ान के महीने में क्रियामुल्लैल को तरावीह की नमाज़ कहा जाता है। क्योंकि सलफ (हमारे पूर्वज) रहिमहुमुल्लाह जब उसे पढ़ते थे, तो हर दो रकअत या चार रकअतों के बाद आराम करते थे, इसलिए कि वे महान पुण्य के अवसर का लाभ उठाते हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निम्न कथन में वर्णित सवाब की आशा और अभिलाषा रखते हुए क्रियामुल्लैल की नमाज़ को लंबी करने में कड़ी मेहनत करते थे:

"जिसने ईमान रखते हुए और पुण्य की आशा रखते हुए रमज़ान का क्रियाम किया, उसके पिछले (यानी अतीत के) पाप क्षमा कर दिए जायेंगे।" इसे बुखारी (हदीस संख्या : 36) ने रिवायत किया है। और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।